

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित 27 JAN 1973

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1973/पौष 11, 1894
No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1973/PAUSA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1973

No. 2-ETC(PN)/73.—It has been decided to increase (free along side) floor prices of various varieties, grades and qualities of Mica as under :—

S No.	Item	Percentage by which f.a.s. price has been increased
1	2	3

I. High Grades of Mica

- (i) Block mica of 2 and up grades and all specified STC patterns within the general grading ranges of 2 and up. 25

1	2	3
II.	Medium grades of mica	
	(a) Block Mica of	
	(i) grades 3 to 5½ (all qualities) heavy stained and better	14.5
	(ii) grades 6 and 7 heavy stained random	
	(iii) STC patterns of stained A and inferior qualities 1-3/8",	
	1-1/2", 1-5/8", × 7/8"	
	(b) Condenser films of grades 3 and down.	
	(c) Book form clear splittings of all grades	
	(i) Loose splittings grade 5 and up all qualities of clear loose splittings	
	(ii) 4 and 5 Mixed torn loose splittings.	
III.	Lower grade of mica	
	(a) Block mica grades 6 and 7 random excepting heavy stained.	10
	(b) Loose splittings grades 6, 1st, 2nd and 3rd spotted ordinary.	
IV.	Lower grades of mica.	
	(a) Block mica of grade 3 to 5-1/2 densely stained and first spotted	5
	and inferior quality mica (including washer mica).	
	(b) (i) Book form splittings 1st and 2nd quality spotted of grades 3 and below	
	(ii) Red Copper Book form splittings	
	(c) (i) Loose splittings in grades 3, 4 and 5 first and second quality spotted	
	(ii) Loose splittings first and second red copper qualities of spotted dusted loose splitting No. 6.	
	(iii) Loose splittings of grades 4 and 5 red copper	

A notification showing revised f.a.s. price of each grade and quality of mica is being issued separately.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports

विदेश व्यापार महालय

मासिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1973

सूचना 2-ई टो सी (पी एन)/73.—विभिन्न प्रकार, श्रेणी और कोटि के अश्रक के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि (जहाज पर निःशुल्क) करने का निश्चय इस प्रकार किया गया है :—

क्रम	मद	जहाज पर निःशुल्क मूल्य में जितनी वृद्धि की गई है, उसका प्रतिशत
1	2	3

1. उच्च श्रेणी का अश्रक

(क) 2 और ऊपर की श्रेणी के ब्लाक अश्रक तथा 2 और ऊपर की सामान्य श्रेणी सीमा के भीतर सभी विशिष्टकृत राज्य व्यापार निगम के नमूने

1

2

3

2 मध्यम श्रेणी का अग्रक

(क) इनके ब्लाक अग्रक :—

- (1) 3 से 5. 1/2 श्रेणियां (सभी कोटि के) हेवी स्टेन्ड तथा केंटर ।
 (2) 6 और 7 श्रेणियां हेवी स्टेन्ड रैंडम ।
 (3) स्टेन्ड ए के राज्य व्यापार निगम के नमूने तथा निम्न कोटि के 1. 3/8" 1. 1/2", 1. 5/8" × 7/8" ।
 (ख) श्रेणी 3 और नीचे की कन्डेंसर फिल्म ।
 (ग) सभी श्रेणी के बुक फार्म क्लीयर स्प्लीटिंग्स ।
 (घ) (1) 5 और ऊपर के लूज स्प्लीटिंग्स, क्लीयर लूज स्प्लीटिंग्स की सभी श्रेणियां ।
 (2) 4 और 5 मिश्रित टर्न लूज स्प्लीटिंग्स ।

16.5

3. अग्रक की निम्न श्रेणियां

- (क) हेवी स्टेन्ड को छोड़कर ब्लाक अग्रक 6 तथा 7 रैंडम ।
 (ख) लूज स्प्लीटिंग्स श्रेणी 6, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्पॉटेड मार्टीनरी ।

10

4. अग्रक की निम्न श्रेणियां

- (क) श्रेणी 3 से 5. 1/2 डेन्सली स्टेन्ड के ब्लाक अग्रक तथा फस्ट स्पॉटेड और निम्नकोटि अग्रक (वाशर अग्रक सहित) ।
 (ख) (1) 3 तथा निम्न श्रेणी के बुक फार्म स्प्लीटिंग्स प्रथम तथा द्वितीय कोटि स्पॉटेड ।
 (2) रेड कापर बुक फार्म स्प्लीटिंग्स ।
 (ग) (1) 3, 4 तथा 5 श्रेणी में प्रथम तथा द्वितीय कोटि के स्पॉटेड लूज स्प्लीटिंग्स ।
 (2) स्पॉटेड डस्टेड लूज स्प्लीटिंग्स नं० 6 की लूज स्प्लीटिंग्स प्रथम तथा द्वितीय कापर श्रेणियां ।
 (3) श्रेणी 4 और 5 रेड कापर की लूज स्प्लीटिंग्स ।

5

अग्रक के प्रत्येक श्रेणी तथा कोटि के संशोधित जहाज पर निःशुल्क मूल्य को प्रदर्शित करने वाली एक अधिमूचना अलग से जारी की जा रही है ।

एम० एम० सेन,

[मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।]

